



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2009/माघ 28, 1930

No. 18]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2009/MAGHA 28, 1930

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2009

सं. फा. 47-29/2008/राअशिप/सीडीएन.— परिषद् की दिनांक 13 फरवरी, 2009 की इसी संख्या की अधिसूचना द्वारा राअशिप की जयपुर में स्थित उत्तरी क्षेत्रीय समिति को तत्काल समाप्त किए जाने पर; राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् निम्नवाली, 1997 के पैरा 7(4) के साथ पठित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के खंड 21(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के खंड 20(3) में यथाउपबंधित विधि के अनुसार राअशिप की जयपुर में स्थित उत्तरी क्षेत्रीय समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :

- क. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के खंड 20(3)(क) के प्रावधान के अधीन एक सदस्य के रूप में प्रोफेसर यू. सी. वशिष्ठा।
- ख. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, दिल्ली राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में से प्रत्येक संबंधित राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के खंड 20(3)(ख) के प्रावधान के अधीन नामित एक-एक प्रतिनिधि।
- ग. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (क्षेत्रीय समिति में नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, कार्यकाल तथा देय भत्ता) विनियम, 1995 के साथ पठित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के खंड 20(3)(ग) के प्रावधान के अनुसार अध्यापक शिक्षा से जुड़े विषयों में विशेष ज्ञान तथा अनुभव रखने वाले निम्न छः व्यक्ति :
  - (i) प्रोफेसर डी. एन. सनसनवाल  
(पूर्व-निदेशक, शिक्षा संस्थान देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर), बी-2-701, ग्रीन होम सोसायटी, सेक्टर-52, प्लॉट नंबर 4, गुडगांव
  - (ii) प्रोफेसर एम.पी. शर्मा  
(पूर्व-अध्यक्ष, शिक्षा संकाय, विद्या भवन, उदयपुर) 36, खरोल कालोनी, सेवा मंदिर मार्ग, फतेहपुरा उदयपुर, राजस्थान
  - (iii) प्रोफेसर एम. के. दास  
अध्यक्ष तथा संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
  - (iv) प्रोफेसर (सुश्री) भारती बवेजा  
संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, सीआईई, दिल्ली विश्वविद्यालय, छात्र मार्ग, दिल्ली-110007
  - (v) डॉ. फरहत उल्ला खान  
मानद प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)

(vi) श्री सत पाल आनंद

तारा-विला, दि माल फिरोजपुर शहर, पंजाब

प्रोफेसर डी. एन. सनसनवाल जयपुर में स्थित उत्तरी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के खंड 20(3) (ग) के अधीन नामित उपर्युक्त छः व्यक्तियों का कार्यकाल दो वर्ष अथवा जब तक नई नियुक्तियां नहीं कर ली जातीं, इनमें से जो भी बाद में हो, तब तक होगा।

हसीब अहमद, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/131/08]

## NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2009

**No. F. 47-29/2008/NCTE/CDN.**—Consequent upon termination of the Northern Regional Committee of NCTE located at Jaipur vide this Council's Notification of even Number dated 13th February, 2009; in exercise of the powers conferred under Section 21(3) of the National Council for Teacher Education Act, 1993 read with Para 7(4) of the National Council for Teacher Education Rules, 1997; the Northern Regional Committee of NCTE located at Jaipur is reconstituted as under in the manner provided under Section 20(3) of the National Council for Teacher Education Act, 1993 :

- A. Prof. U.C. Vashisht as a member under provisions of Section 20(3) (a) of the National Council for Teacher Education Act, 1993.
- B. One representative from each of the states of Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Delhi and the Union Territory of Chandigarh to be nominated by the respective States and Union Territory under provisions of Section 20(3)(b) of the National Council for Teacher Education Act, 1993.
- C. Following six persons having special knowledge and experience in matters relating to teacher education as per provisions of Section 20(3)(c) of the National Council for Teacher Education Act, 1993 read with the National Council for Teacher Education (number of persons to be nominated to Regional Committee, their term of office and allowance payable) Regulations, 1995 :
  - (i) Prof. D. N. Sansanwal (Former Director, Institute of Education Devi Ahilya University, Indore) B-2-701, Green Home Society, Sector 52, Plot No. 4, Gurgaon
  - (ii) Prof. M. P. Sharma (Former Chairman, Faculty of Education, Vidya Bhawan, Udaipur) 36, Kharol Colony, Sewa Mandir Road, Fatehpura Udaipur, Rajasthan
  - (iii) Prof. M. K. Dass, Head & Dean, Faculty of Education, Kashi Vidyapeeth, Varanasi, U.P.
  - (iv) Prof. (Ms) Bharti Baweja Dean, Faculty of Education, CIE, University of Delhi, Chhatra Marg, Delhi -110007
  - (v) Dr. Farhat Ullah Khan, Professor Emeritus, Department of English, Aligarh Muslim University, Aligarh (U.P.)
  - (vi) Shri Sat Pal Anand, Tara-Villa, the Mall, Ferozpur City, Punjab

Prof. D. N. Sansanwal will function as the Chairperson of the Northern Regional Committee of NCTE located at Jaipur.

2. The term of office of six persons nominated under Section 20(3)(c) of the National Council for Teacher Education Act, 1993 as above shall be two years or till fresh appointments are made, whichever is later.

HASIBAHMAD, Member Secy.

[ADVT III/4/Exty/131/08]